

### LIL:SE:REG30:2022-23

JUNE 29, 2022

BSE Limited	The National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department	Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1 Block G,
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex,
	Bandra (E), Mumbai – 400051
Security Code : 517206	Symbol: LUMAXIND

Subject: Intimation for publication of information regarding 41st AGM in Newspapers.

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clippings of the information published in newspapers viz. 1. Financial Express (English- All Editions) and 2. Jansatta (Hindi-Delhi Edition) on June 29, 2022, requiring the attention of members regarding 41<sup>st</sup> Annual General Meeting of Lumax Industries Limited which is scheduled to be held on Friday, July 22, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conference/Other Audio Visual Means, in compliance with the circulars(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs(MCA) and Securities and Exchange Board of India(SEBI) and also informing them about the manner of updation of E-mail addresses and Bank account details, books closure and process of Deducting Tax at Source on Dividend.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Lumax Industries Limited

ghenden

Pankaj Mahendru Company Secretary Membership No. A28161

**Encl: As stated Above** 



The General Public is hereby informe that my client Smt. Sudesh Kumari W/c

Late Sh. Diwan Chand R/o 158, 1s Floor, Pocket-25, Sector 24, Rohini

Delhi-85 have severed all their

relations with their son Mr. Joginde

Kumar, his wife Mrs. Mukta Verma and

grandson Master Laven, due to his bad

behaviour and ill will. My above name

client has also disowned and debarred

his said son, his wife and grand sor

from all their movable and immovable

properties. Anybody dealing with Mr.

Joginder Kumar or with his family will do so at his/her/their own risk and

responsibilities and my clients will not

be responsible for any act, deed o

dealing done by Mr. Joginder Kumar o

Praveen Rastogi (Advocate)

Enrol No-D/244/06

Mrs. mukta Verma or Master Laven.

### **IDFC First Bank Limited**

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792



Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

> Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited. amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	44329508	HOME LOAN	1. KANHAIYA SINGH 2. MANSA DEVI	24.06.2022	46,10,655.47/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUS ON PLOT (PRESUMABLY M.C.L. NO B-2: 6142/23 AS PER T.S.1 FORM), MEASURIN 116 SQ. YDS., COMPRISED IN THE KHASR NO. 1982/1370, 1983/1370, SITUATED IN TH VILLAGE "TARAF SAIDAN", LOCALIT KNOWN AS "NEW HARGOBIND NAGAR TEHSIL & DISTRICT-LUDHIANA, AN BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOR, WEST: STREET NORTH: OM PARKASH, SOUTH: NEIGHBOR

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

> **Authorized Officer** IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

> > DK JAIN

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA (U.P.) 201301

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)] Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of inancial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

are amount(a), membersed neremberow be	isides illierestaria other crisiges?	exhenses against each account.	
Name of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
Mr. Somvir S/o Manak Chand, Sagarpur 55, Sagarpur, Faridabad, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana - 121004, Also at:	and building, of a Freehold	Date of Demand Notice: 17.01.2022 Date of possession: 28.06.2022 , area admeasuring 100 Sq. Yards,	14.01.2022 & interest
Mr. Somvir S/o Manak Chand, Tanwar Electricals Works Shop No. 6, Poojari Market, Near Lal Kodi, Subhash Colony, Faridabad, Haryana - 121004 and Co- Borrowers Mrs. Kamlesh W/o Somvir Sagarpur 55, Sagarpur, Faridabad,	out of Khewat/ Khata No. 42/82, 21/1, 22, 3/2, Mustil No. 32, Killi situated at Waka Mouza Sagarpi is bounded as under: Boundarie	Mustil No. 31, Killa No. 1/2, Khatoni 8: a No. 7 Min Khatoni No. 84, Mustil n ur, Tehsil Ballabgarh, District Faridab: s: East: Others Property (Saverjeet)	3, Mustil No. 36 Killa No. o. 32, Killa No. 3/2, 8/1, ad, Haryana, and which
Ballabhgarh, Faridabad, Haryana - 12100			
Mr. Bal Krishan Joshi S/o Dulichand, Plot No.33, Gayatri Garden Vatika, Jaipur, Rajasthan – 308905, and Co-Borrowers Mrs. Rekha W/o Bal Krishan Joshi, Plot	and building, of the Plot No. 33,	Date of Demand Notice: 19.01.2022 Date of possession: 28.06.2022 Yards, situated at Scheme Gayatri	17.01.2022 & interest
No.33, Gayatri Garden Vatika, Jaipur, Rajasthan- 308905, In Loan Account No.2338210150000005.	Garden at Village Vatika (Mohan	pura), Sanganer, Jaipur Rajasthan, a No. 27, West: Road 30 Feet Wide, N	
Mr. Dinesh Sharma S/o Kailash Sharma, H. No. 848, Dakota ka Mohalla,			Rs. 4,37,576/- as on 08.02.2022 & interest

Dakota ka Mohalla, Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029, In Loan Account No. 233876100000020.

and Co-Borrowers Mrs. Damodari Devi, Mohalla, Behind Shiv Mandir, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, which is bounded as follows:

W/o Kailash Sharma, H. No. 848, Boundaries: East: Mahaveer, West: Plot No. 3, North: Other Plots, South: Road 30 Feet Wide.

Sanganer, Jaipur, Rajasthan- 302029, 848, area admeasuring 61.07 Sq. Yards, situated at Dakota Ka thereon

Place: Faridabad & Jaipur Date: 28.06.2022 **Authorised Officer** 

Date: 29.06.2022

Place: PUNJAB

# For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214



### PERSONAL

**I,Harish** Chander Duggal,son of,Bal Raj Duggal,residing at, Silver Oakwood Residency-2,.Flat.No.4,4th-Floor,Block-A, 1063-B, Ward. No-8, Mehrauli, Delhi-30,have changed my name to Harish Duggal permanently.

BUSINESS OFFERS

I, NEERAJ ARORA S/O PREM FOR FUNDING LAL ARORA r/o Second floor, 4/35, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060 have changed SHARES my name to NEERAJH ARORA. 0040620340-1

0040620407-8

AGAINST LISTED VFSL Capito naz@vfslcapital.com www.vfslcapital.com

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh) O.A. No. 505/2019

Date: 23.05.2022 Summons to defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery

Tribunal (Procedure Rules). Canara Bank, (E: Syndicate Bank). Applicant.

Srikanta Kumar Rout and Other...

 M/s La Residentia Developers Private Limited, Registered Office at 220, 2nd Floor, Vardhmar Sunrise Plaza, Plot no. 1, SSC Vasundhara Enclave, Delhi 110096 Corporate Office at- Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida, District Gautam

Also At: Flat No. T-9, 2203, 22th Floor, Tower-T-9, Amrapali La-Residentia, Situated at Plot No. GH-06A, Noida Extension, Techzone-4. District-Gautam Buddh Nagar, Through Authorized Signatory In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with

documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 27/09/2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of the Tribunal on this the 23, May, 2022.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

Rs. 10,000/-

Thousand

only)

Rs. 10,000/

(Rs Ten

Thousand

only)

(Rs Ten

Thousand

only)

Sh. Nitesh Kumar

Mobile - 8288044464

Email -

g0191@psb.co.in

Sh. Nitesh Kumar

Mobile - 8288044464

Email -

g0191@psb.co.in

Sh. Amit Ranjan

Mobile - 9528293810

Email -

zo.noida@psb.co.in

Authorised Officer, Punjab & Sind Bank

12.07.2022

02:00 PM to

04:00 PM

13.07.2022

10:00 AM to

12:00 PM

11.07.2022

02:00 PM to

04:00 PM

01:00 PM

30.07.2022

11:00 AM to

01:00 PM

30.07.2022

11:00 AM to

01:00 PM

### **LUMAX INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L74899DL1981PLC012804

Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex,

Nangal Raya, New Delhi- 110046 Tel: 011 49857832 Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Email: lumaxshare@lumaxmail.com

INFORMATION REGARDING 41<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("VC/ OAVM") This is to inform that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the

members of the Company will be held on Friday, July 22, 2022 at 11.00 A.M.(IST) through "VC/ OAVM" in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed thereunder, read with General Circular Nos. 20/2020, 02/2021 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated May 5, 2020, January 13, 2021 December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively read with other Circulars, as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs(MCA)(collectively referred to as 'MCA Circulars' and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 respectively read with other Circulars as may be issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the business as set out in the notice dated May 24, 2022 which will be sent to members through e-mail separately.

The Notice convening the 41" AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2022 alongwith the login details for joining the 41" AGM through VC/OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Kfin Technologies Limited (formerly, Kfin Technologies Private Limited). Registrar and Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DPs"). Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 41st AGM and the Annual Report will also be made

available on Company's website (https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries) Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). The Company is pleased to provide remote e-voting facility ("remote

e-voting") prior to AGM and e-voting during the AGM, through NSDL to all its members to cast their respective votes on all resolution(s) set out in the Notice convening the 41" AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting by members (including for those members, who are holding shares in physical form or have not registered their email IDs) will be provided in the Notice of 41 AGM.

Registration of E-mail addresses and updation of Bank Account

Members who have not registered their Email IDs and/or not updated their Bank account mandate for receiving Notice of AGM. Annual Report and dividend are requested to follow the below instructions:

For members holding shares in electronic form: Contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details as per the process advised by your DP. For shares held in physical form: Register/Update the details with

the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com in prescribed Form ISR -1 and other relevant forms pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, as per instructions mentioned in the form. The said form(s) can be downloaded from the Company's website under Investor Relations section at <a href="https://www.lumaxworld.in/">https://www.lumaxworld.in/</a> lumaxindustries/investor-relations.html.

### **Book Closure and Dividend**

Members may note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on May 24, 2022 had considered and recommended a Dividend of Rs. 13.50 (i.e. 135%) per Equity share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2022, for the approval of members at the ensuing AGM. The Dividend, if approved by members, will be paid to the members holding shares on record date/cut-off date i.e, Monday, July 11, 2022. Further, the members may note that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, July 12, 2022 to Friday, July 22, 2022 (both days inclusive) for the purposes of AGM and for determining the entitlement of members to the Dividend for the FY 2021-22, i approved by the members at the AGM.

### Tax on Dividend

Place: Gurugram

Date : 28th June 2022

financialexp.epapr.in

The members may be aware that, in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be liable to deduct TDS at the time of payment of Dividend. Deduction of TDS will depend upon the residential status of the shareholders and the necessary documents submitted by them and accepted by the Company in accordance with the applicable provisions of the IT Act. Further, the members may note that the Company has also sent an email in this regard on 28 June 2022 to all the shareholders having their email IDs registered with the Company/Depositories, explaining the applicable conditions for deduction of TDS and for submission of the requisite documents along with the links to various forms. This communication is also available on the website of the Company at https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/corporateannouncements.html.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For Lumax Industries Limited

Pankaj Mahendru

Company Secretary

Punjab & Sind Bank Where service is a way of life

पर्धि हो बर्गावसकु भी को प्रकार

# PUNJAB & SIND BANK

**Zonal Office Noida,** C-1A, Sector-63, Noida, Ph.: 0120-4314956

**E-AUCTION** NOTICE

### PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES, LAST DATE TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 29-07-2022 AT 4.00 P.M.

Sale of immovable property mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No.54 of 2002) Whereas, the Authorized Officer of Punjab

& Sind Bank had taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 in the following loan accounts with our Branch with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS" for realization of Bank's dues. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: https://www.bankeauctions.com DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

7	90	860 660		DECOM	11011 01 1111110	TABLE I NOT LIK	1120		95 50		20
Sr. No.	Name of the Borrower and Branch	Description of Property	Status of Possession	Demand Notice Date Notice Amount	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD) amount and Last Date and Time of Deposit of EMD	EMD Submission Account Details	Date/Time of E-Auction	Property Inspection Date and Time	Incremental Bid Amount	Name and Contact No. of Authorized Officer
1	Ghaziabad Borrower - Sanjay Kumar Sharma	Flat No. F1/A First Floor Without Roof Right Out of Khasra No. 291min Block-F New Anand Vihar Sadullabad Loni Ghaziabad in the name of Sanjay Kumar Sharma Area -83.61 Sq.Mts	Symbolic	22.07.2016  Rs. 14,39,355.80 as on 30.06.2016 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Fifteen Lakhs and Twenty Thousand	Lakh and Fifty Two	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511	30.07.2022 11:00 AM to 01:00 PM	11.07.2022 10:00 AM to 12:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Amit Ranjan Mobile - 9528293810 Email - zo.noida@psb.co.in
2	Ghaziabad Borrower - Harish Shukla	Flat No.FF5 First Floor Without Roof Right MIG at Plot No. B1/1 Ganga Vihar Sadullabad Loni Ghaziabad in the name of Harish Shukla Area - 55.74 Sq.Mts	7/2	Rs. 20,67,269.23 as on 31.01.2022 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Fifteen Lakhs and Eighty Thousand	Lakh Fifty Eight	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511		11.07.2022 10:00 AM to 12:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Nitesh Kumar Mobile - 8288044464 Email - g0191@psb.co.in
3	Ghaziabad Borrower - Hari Om Verma	Flat No.S-04 Second Floor Without Roof Rights Right Hand Portion At Plot No.10 Vikram Enclave Extension Vilage Pasonda Sahibabad Ghaziabad in the name of Hari Om Verma and Kamlesh Verma Area-41.81 Sq.Mts		16.07.2015  Rs. 17,70,581.40 as on 04.07.2015 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Thirteen Lakhs and Fifty Thousand only)	Lakh Thirty Five	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511		11.07.2022 12:00 PM to 02:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Nitesh Kumar Mobile - 8288044464 Email - g0191@psb.co.in
4	Ghaziabad Borrower - Sarita Verma and		Physical	20.01.2017  Rs. 45,16,002 as on 01.01.2017 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Thirty Four Lakhs only)	Lakhs Fourty Thousand	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511	30.07.2022 11:00 AM to 01:00 PM	11.07.2022 02:00 PM to 04:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Nitesh Kumar Mobile - 8288044464 Email - g0191@psb.co.in
5	Ghaziabad Borrower - Braham Pal	Second Floor At Plot No.101 Akash Wani Colony Akash Vihar Village Sadullabad Loni Ghaziabad in the name of Braham Pal Area - 74.32 Sq.Mts		03.03.2022  Rs. 25,21,463.86 as on 28.02.2022 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Twenty Four Lakhs and Seventy Five	Lakhs Fourty Seven Thousand and Five	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511	11:00 AM to	12.07.2022 10:00 AM to 12:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Nitesh Kumar Mobile - 8288044464 Email - g0191@psb.co.in
6	Ghaziabad Borrower - Ved Pal and Sheela	Flat No.F1/16 First Floor Part of Khasra No.377 Village Nasirpur Nehru Nagar Ghaziabad in the name of Vedpal and Sheela Area - 71.07 Sq.Mts		15.07.2017  Rs. 20,71,343 as on 30.06.2017 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Twelve Lakhs Fifty Thousand only)	Lakh Twenty Five	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511		12.07.2022 12:00 PM to 02:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Nitesh Kumar Mobile - 8288044464 Email - g0191@psb.co.in
7	Ghaziabad Borrower - Meenu Tyagi and	Second Floor Part of Plot no.173 Eastern Side Out of Khasra no.1817min Shatabdi Puram Sadarpur Dasna Ghaziabad in the name of Meenu Tyagi Area - 48.30 Sq.Mts		29.09.2021  Rs. 15,15,637.23 as on 31.08.2021 plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Twelve Lakhs Fifty Thousand only)	Lakh Thirty Five	A.c No 15111100000170 A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC Code - PSIB0021511	11:00 AM to	11.07.2022 12:00 PM to 02:00 PM	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Sh. Amit Ranjan Mobile - 9528293810 Email - zo.noida@psb.co.in
	The second secon	The state of the s		COLUMN TO A COLUMN	Manager and Company of the Company o	The second secon	Marie Committee of the				The second second

### TERMS & CONDITIONS:

Rishi Sharma

Rama Chandran

Gupta

Ghaziabad Borrower -

Rita Lal Sharma

10 BO - Indirapuram,

Ghaziabad Borrower

Geeta Sharma and

The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

Area - 83.61 Sq.Mt

8 BO - Railway Road Flat No.G2 Ground Floor At Plot Symbolic

Extension-I Pasonda Loni

Ghaziabad in the name of Rita Lal

House no. A-109 Out of Khasra

No.1027M AT Janakpuri Village

Pasonda Ghazibad UP in the name

of Geeta Sharma and Rishi Sharma

Ghaziabad Borrower - I No.A1/37 DLF Dilshad Extension-2

Avnish Agnihotri and Ghaziabad in the name of Avnish

Jitender Kaur Agnihotri and Jitender Kaur Area

9 BO - Pasonda House No.874 Shalimar Garden

Guarantor - Bhupinder | Sharma Area - 54.34 Sq.Mts

Guarantor - Rajesh 60.38 Sq.Mts

2. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues.

Rs. 8,87,310.74 as on Thirty Seven Lakhs Lakhs Seventy A/C Name - ZO Noida A/C

30.06.2018 plus further and Seventy Five Thousand and Five E-Auction Name of

Rs. 54.36,000/- (Rs. Rs.5,43,600/- (Rs. Five

Rs. 55,32,057/- as on Fifty Four Lakhs Lakhs Fourty Three A/c Name - ZO Noida A/c

31.05.2019 plus further Thirty Six Thousand Thousand Six Hundred E-Auction Name of

29.07.2022 till 4 P.M

Rs.23,75,000/- (Rs. Rs.2,37,500/- (Rs. Two A.c No. - 15111100000170

Twenty Three Lakhs Lakhs Thirty Seven A/c Name - ZO Noida A/c

Hundred only)

29.07.2022 till 4 P.M

Rs.37,00,000/- (Rs. Rs.3,70,000/- (Rs. Three A.c No. - 15111100000170 30.07.2022

Thousand only) E-Auction Name of

only) 29.07.2022 till 4 P.M Beneficiary - Punjab &

Beneficiary - Punjab &

Sind IFSC Code

Beneficiary - Punjab &

Sind IFSC Code

A.c No. - 15111100000170

Sind IFSC Code

PSIB0021511

PSIB0021511

PSIB0021511

- It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid.
- The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact Help Desk; +91 7291981124,7291981125,7291981126, Helpline e-mail IDsupport@bankeauctions.com and for any property related query may contact Authorized officers during the office hours on any working day.
- Only buyers holding valid User ID/ Password and confirmed payment of EMD through NEFT/RTGS shall be eligible for participating in the e-Auction process.

Symbolic

Physical

- The interested bidders, who have submitted their EMD not below the 10% of Reserve Price through online mode before 29-07-2022 at 4.00 P.M. shall be eligible for participating in the e-bidding process. The e-Auction of above properties would be conducted exactly on the scheduled Date & Time as mentioned against each property by way of inter-se bidding amongst the bidders. The bidder shall improve their offer in multiple of the amount mentioned under the column "Bid Increase Amount" against each property. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (subject to maximum of unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on closure of e-Auction process shall be declared as Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorized Officer/ Secured Creditor.
- The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, immediately of the acceptance of bid price by the Authorised Officer and the balance 75% of the sale price on or before 15th day of sale or within such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be further in the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount.

The prospective qualified bidders may avail online training on e-Auction from M/s C1 India Pvt Ltd., Prior to the date of e-Auction. Neither the Authorised Officer / Bank nor M/s C1 India Pvt, Ltd., shall be liable for any Internet Network problem and the interested bidders to

- ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/additional stamp duty/ transfer charges, fee etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. owing to anybody prior and future.
- 10. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction without assigning any reason thereof. 11. The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Website (https://www.bankeauctions.com) of M/s C1 India Pvt. Ltd before submitting their bids and taking part in the e-Auction.

30.09.2021

interest, expenses and

09.07.2018

Rs. 11.75,860/- as on

other charges etc thereon

1/6/2019

other charges etc thereon

interest, expenses and only)

interest, expenses and Thousandonly)

other charges etc thereon

30.09.2021 plus further only)

STATUTORY 15/30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Note: This is also a notice to the borrower/guarantors/mortgagors of the above loan under Rule 8(6) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 about holding E-auction for the sale of the secured assets on

the above mentioned date if his /their dues are not cleared in full. Date : 28-06-2022, Place : Noida

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गति-शक्ति परियोजना देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगी और इसका लाभ छोटे औद्योगिक क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र को लाभ होगा।

लोकसभा अध्यक्ष विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से भारत को पांच ट्रिलयन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पाने में आसानी होगी। इस मौके ओम बिरला और केंद्रीय सडक परिवहन

और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी में विश्व संपर्क देश की प्रगति की ने विजेताओं को पुरस्कार देकर

सम्मानित किया। ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री की दुरदृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नई गति मिली है। सडक निर्माण और अवसरंचना आधनिकीकरण के क्षेत्र में नए रेकार्ड बन रहे हैं, इससे देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे से विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। गुणवत्तापुर्ण सडकों के माध्यम से न केवल बड़े शहरों को बल्कि गांवों और पहाडी क्षेत्रों को भी जोडा जा रहा है। बिरला ने कहा

कि प्रगति, समृद्धि और आर्थिक

विकास के लिए बुनियादी ढांचा एक

मुलभृत आवश्यकता है। 21वीं सदी

गति को निर्धारित करता है।

### सिमित दावित्व साझेदारी निवम, 2009 के निवम 16 के अनुसरण में] कंपनी पंजीवक के समक्ष दिल्ली एवं हरियाणा,

सीमित दावित्व साझेदारी अधिनियम. 2008. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और सीमित दावित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 16 के मामले में

क्लोपेन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ('एलएलपी') जिसका पंजीकरण संख्या AAN-9226. जिसका पंजीकृत कार्यालय एसएफ-221, दुसरा प्रलोर, आईटी कॉम्प्लेक्स जेएमडी मेगापोलिस, विलेज -टिकरी, सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा-122018

में है, के मामले में आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि क्लोपेन रिसर्च कैपिटल एलएलपी (सीमित दायित्व साझेदारी यहां के बाद एलएलपी/आवेदक के रूप में संदर्भित) अपने पंजीकृत कार्यालय को 'हरियाणा राज्य' से 'दिल्ली की रा.रा.क्षे' में परिवर्तित करने में सक्षम बनाने के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान में संशोधन के पृष्टीकरण हेत सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करता है। कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रमावित होने की संभावना हो, वह अपनी आपति एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपधपत्र के साथ इसे पंजीकृत डाक द्वारा 04 पलोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 में कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा नई दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (एक्कीस) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी जानी चाहिए। एसएफ-221, दुसरा पतोर, आईटी कॉम्प्लेक्स, जेएमडी मेगापोलिस, विलेज-टिकरी, सोहना रोड,

बुढवांब, हरिवाणा-122018 कते और आवेदक की ओर से क्लोपेन रिसर्च कैपिटल एलएलपी

आशीष गोयल पदनामित साझेदार (बीआईएनः 08583299)

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड के लिं तिथि: 27.06.2022 अदिति सिंह आवासीय पताः 25, अनुपम अपार्टमेंट, बीबीए, एम.बी. शेब, नई दिल्ली-110068

कार्यालयः न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, यूनिट नंबर 781, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 08, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110075, ई-मेलः info@newhabitat.in, वेबः www.newhabitat.in, मो.: +91-9999694526 ई-नीलामी बिक्री सूचना

आरक्षित मूल्य



ई-नीलामी की वसूली हेतु बकाया राशि

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC वे प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री न्यू हैबिटैंट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई-नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत **ँ**जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, और जो कुछ भी हैं<sup>®</sup> के आधार पर की जाएगी।

सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	तिथि व समयः समयः 60 मिनट	जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	श्री ब्रहम दत्त पुत्र श्री सुंदर लाल उनियाल और श्रीमती सीमा पत्नी श्री ब्रहम दत्त ऋण खाता संख्या—HSG/ N/HEA/NOI/0316/0030	आवासीय मकान नंबर ई-41, कुल रकबाई 40 वर्ग गज, कुल कवर एरिया 33,44 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 42, गंगा विहार एक्सटेंशन, ग्राम सादुलाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद। निम्न प्रकार से परिबद्ध:- पूर्व: भवन नं. ई-42, पश्चिम: रास्ता 30 फीट, उत्तर: मवन नं ई-39, दक्षिण: भवन नं ई-43 (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	ईएमडी रु.1,50,000.00	29/07/2022 पूर्वो 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 15,06,074 दिनांक : 31/05/22
2.	श्री देवेंद्र प्रभाकर और श्रीमती	पलैट नंबर सी—1, द्वितीय तल, फीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर डी—01 पर निर्मित, खसरा नंबर 157बी, साई उपवन, ग्राम युसुफपुर चकसाबेरी, परगना और तहसील दादरी, जिला गीतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	आर.पी. रु. 12,00,000.00 ईएमडी रु. 1,20,000.00 रु. 25,000.00	29/07/2022 पूर्वो 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 9,87,589 दिनांक : 31/05/22
श्रीमती अनुराधा रानी ऋण खाता संख्या-HSG/N/ HEA/NOI/1018/0002  4. श्रीमती सुषमा पत्नी श्री विनोद, श्री विनोद पुत्र श्री भीम सिंह और श्रीमती कल्पना पत्नी श्री आर्यन (गारंटर)		मकान नंबर 25, (जूजेशाग) ब्लॉक—सी, एरिया परिमाप 50 वर्ग गज (41.805 वर्ग मीटर), कवर एरिया 41.805 वर्ग मीटर खसरा नंबर 392मीन, ए.बी.सी.डी. इंद्रापुरी आवासीय कॉलोनी, हडबस्त ग्राम घरोटीखुर्द, परगना लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद (यूपी) में रिथत है। (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	आर.पी. रु. 23,50,000.00 ईएमडी रु. 2,35,000.00 रु. 25,000.00	29/07/2022 पूर्वा 11:00 बजे से दापहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 26,65,542 दिनांक : 31/05/22
		आवासीय फ्लैट नंबर एसएफ-4, एम.आई. जी., द्वितीय तल, छत के अधिकार के साथ, बाएं डाथ पीछे की ओर, एक झड़ंग / डाइनिंग रुम, दो बेड रुम, दो शीचालय, एक रसोई और एक बालकनी कुल कवर एरिया 522 वर्ग फुट (48.49 वर्ग मीटर), फ्लॉट नंबर सी-201, एसएलएफ, वेद विहार, हड़बरत ग्राम सायुलाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में। (भीतिक कब्जा के अंतर्गत)	आर.पी. रु. 23,00,000.00 ईएमडी रु. 2,30,000.00 रु. 25,000.00	29/07/2022 पूर्वा 11.00 बजे से दापहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु, 22,17,689 दिनांक : 31/05/22
5.	और रेणु पत्नी प्रदीप ऋण खाता संख्या—	संपत्ति सं. 500 / 20-ए, एरिया परिमाप 25+25=50 वर्ग गज यानी 41,80 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 220 में से, गांव कडकडडूमा, भीकम सिंह कॉलोनी, ब्लॉक 32. विश्वास नगर इलाका शाहदरा दिल्ली—110032 की आबादी में स्थित है, निम्ननानुसार सीमाबद्ध:—पूर्वः अन्य संपत्ति, परिचमः अन्य संपत्ति, उत्तरः मली, दक्षिणः अन्य संपत्ति (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	आर.पी. रु. 68,00,000.00 ईएमडी रु. 6,80,000.00 रु. 50,000.00	29/07/2022 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 12,92,021 दिनांक : 31/05/22

र्डएमढी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 28-07-2022 का अप. 4.00 बजे तक संपत्तियों की निरिक्षण की तिथि व समय : 22-07-2022 को पूर्वा.11.00 से अर्पा. to 4.00 के बीच अन्य जानकारी हेत् समपर्क करें : श्री रवि कमार (प्राधिकत अधिकारी) - 9999694526

ई-नीलामी की नियम एवं शर्तेः

1. यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजी लि. Auction Tiger (सम्पर्क: 6351896834 079-68136855/854,079-61200594/558 के माध्यम से वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर ऑनलाईन "जैसा है जहां है आधार जैसा है वैसा ही आधार है, और जो कुछ भी है" के आधार पर संचालित की जायेगी। नीतीश झा—07982880393 प्रधान कार्यालय संपर्क व्यक्ति राम शर्मा-8000023297, 6351896834 पृष्पित मारू – 6351896834, ईमेल पता -pushpit@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net nclt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. ऑनलाईन नीलामी बिकी के अंतर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणपत्र, समान्य नियम शर्ते आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://sarfaesi.auctiontiger.net 2. अद्योहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान व अनुसार संपत्ति पर कोई प्रभार नही है । यथापि इच्छक बोलीदाताओं को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वात दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तृत करने से पूर्व कर लेनी चाहिएं ई— नीलामी विज्ञापन एनबीएफसी / एचएफर्स की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। संपत्ति की बिकी एनबीएफसी / एचएफसी को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारों / ऋणमारों के साथ की जा रहीहै। प्राधिकत अधिकारी / प्रतिभू लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 3. भावी बीलीदाता धरोहर रार्शि एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी / स्थानांतरण के रूप में खाता संख्या 00000036728174634, लामार्थी न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपगेंट लिगिटेड के नाम पर, भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई शाखा, आसफ अली रोड(62203), आई एफ एस सी कोड : SBIN0062203 में जमा करें। 4 यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्निनर्माण और प्रतिभृत हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्ती व अनुसार की जायेगी। 5. सफल बोदलदाता को बिक्री पर विचार हेतु रखा जाएगा। और उसी को बिक्री मृत्य के लिए समायोजित किया जाएगा और असफर बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्यॉज नहीं होगा। ह. सफल बोलीदाता बिकी का 25% प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी सहित उसी दिन जमा करना होगा। उसके / उनके पक्ष में बिकी की तारीख से 15 दिनों के मीतर बोली राशि का 75% प्रतिशत राशि का जमा करना होगा। 7 निर्धारित समय के भीतर सफल बोलीदाता 🗸 नीलामी खरीदार द्वारा राशि के भूगतान में किफॉल्ट के मामले में, बिक्की को रद्द कर दिया जाएगा और पहले से भगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति फिर से बिकी के लिए डाल दी जाएगी और डिफॉल्ट हो जाएगी संपत्ति / राशि के संबंध में बोली लगाने वाले का कोई दावा / अधिकार नहीं होगा। 8. प्राधिकृत अधिकारी / NHHFDL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का या सभी प्रस्तावों की ई—नीलामी को स्थगित / रद या बिना किसी कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति को वापस करने का पूर्ण अधिकार रखता है। 9. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 10. । नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। https://sarfaesi.auctiontiger.net और www.newhabitat.in तिथि: 29/06/2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

### PUBLIC NOTICE

[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules 2014] Advertisement giving notice for change of registered office of the Company from one state to another

Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of MY OWN ROOMS DOT IN PRIVATE LIMITED having its Registered Office at Building No.2346, 3rd Floor, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi East Delhi DI 110005. Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the

Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on Wednesday, 22nd day of June, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi" to the "State of Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change may deliver either on

MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or may send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003, within fourteen days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address

Building No.2346, 3rd Floor, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi East Delhi DI 110005.

For and on behalf of MY OWN ROOMS DOT IN PRIVATE LIMITED

Dated this 29th day of June' 2022

DIN: 00691457

# LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1981PLC012804 पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल. हरवंश भवन-II. कमर्शियल कॉम्पलेक्स. नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष : 011-49857832 वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, इमेल: lumaxshare@lumaxmail.com

वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाने वाली 41वीं वार्षिक आम बैठक

### के संबंध में सचना

यह सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) जिसका नोटिस, दिनांक 24 मई, 2022, सदस्यों को अलग से ई—मेल के जरिए प्रेषित किया जाएगा, में यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु सभी प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 02/2021, 19/2021 21 / 2021 और 2 / 2022 क्रमशः दिनांक 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 तथा अन्य परिपत्रों, जो भी लागू हो, (सामृहिक रूप से **''एमसीए परिपत्रों''** के तौर पर संदर्भित) के साथ पठित और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या से बी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआई आर / पी / 2020 / 79 सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 - और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 सेबी द्वारा जारी अन्य परिपत्रों जो भी लागु हो, के साथ पठित (सामहिक रूप से "सेबी परिपत्रों" के तौर पर संदर्भित) के अनुपालन में ''वीसी / ओएवीएम'' के जरिए शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी।

41वीं वार्षिक आम बैठक बलाए जाने का नोटिस साथ में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट साथ में ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सविधा के जरिए 41वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण केवल ई-मेल के जरिए उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते पहले ही कंपनी अथवा केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती, केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'') अथवा उनके संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपीज") के पास पंजीकृत हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के जरिए भागीदारी करने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम के अनुच्छेद 103 के अधीन कोरम की गणना के उददेश्य के लिए की जाएगी।

41वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries), स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध

कंपनी 41वीं एजीएम बुलाए जाने के नोटिस में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने संबंधित वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पहले एनएसडीएल की रिमोट ई—वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई—वोटिंग'') और एजीएम के दौरान एनएसडीएल की ई-वोटिंग सर्विधा उपलब्ध कराएगी। सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तुत प्रक्रिया (उन सदस्यों सहित, जो कि भौतिक स्वरूप में शेयर धारण कर रहे हैं अथवा अपने ई-मेल आईडीज पंजीकृत नहीं कराए हैं) 41वीं एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई जाएगी।

ई—मेल पतों का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों का अद्यतनः जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं और/अथवा

एजीएम का नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और लामांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता विवरण को अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें:

• इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए: अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी की सलाह पर प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ई—मेल पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने के मामले में: सेबी परिपन्न संख्या

सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी / पी / सीआईआर / 2021 / 655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 के अनुसरण, फार्म में वर्णित अनुदेशों के अनुरूप, कंपनी के आरटीए के साथ einward.ris@kfintech.com पर निर्धारित फार्म आईएसआर–1 और अन्य संगत फार्मों में विवरण पंजीकृत / अद्यतन कराएं।

कंपनी ने भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले उन सदस्यों को केवाईसी विवरण प्रेषित करने के लिए पत्र भेजे थे, जिन्होंने अपने संबंधित फोलियो में ये दर्ज नहीं कराए हैं। उक्त फार्म कंपनी की येबसाइट https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/investor-relations.html से निवेश संबंध खण्ड के अधीन डाउनलोड किए जा सकते हैं।

### बुक क्लोजर और लाभांश

सदस्य नोट कर लें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई. 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक 10 / – रू के अंकित मुल्य के कंपनी के प्रति इक्विटी शेयर पर रू 13.50 (यानि 135%) के लाभांश, कंपनी के शेयरधारकों की इनकी आगामी एजीएम में स्वीकृति के विषयाधीन, पर विचार और इसकी अनुशंसा की थी। लाभांश का भगतान, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है, रिकॉंड तिथि / कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 11 जुलाई, 2022 को शेयर धारण करने वाले सदस्यों को किया जाएगा। इसके अलावा, सदस्य नोट कर लें कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम के उद्देश्य के लिए और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लामांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है, की पात्रता के निर्घारण के लिए मंगलवार, 12 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

सभी सदस्य अवगत होंगे कि वित्त अधिनियम, 2020 के तहत यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी एक्ट") के प्रावधानों के अधीन, 1 अप्रैल, 2020 को अथवा इसके बाद कंपनी द्वारा भूगतान या वितरित किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कंपनी को लाभांश के भगतान के समय टीडीएस की कटौती करनी होगी। टीडीएस की कटौती शेयरधारकों के आवासीय दर्जे और उनके द्वारा प्रस्तत तथा कंपनी द्वारा आईटी एक्ट के लाग प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत आवश्यक दस्तावेजों पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त सदस्य नोट कर लें कि कंपनी ने सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अपने ई–मेल आईडीज कंपनी/डिपाजिटरीज के साथ पंजीकृत कराए हैं, टीडीएस की कटौती के लिए लागू शर्तों और अपेक्षित दस्तावेज की प्रस्तति के लिए विभिन्न फार्मों के लिंक्स के साथ का उल्लेख करते हुए इस संबंध में 28 जुन 2022 को एक ई-मेल भी भेजा है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/corporate-announcements.html पर भी

उपर्युक्त सुचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए तथा एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों की अनुपालना में जारी की जा रही है।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 28 जून, 2022

ई-नीलामी की 1. आरक्षित मूल्य

पंकज महेन्द्र कंपनी सचिव/

### बैक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

शाखा : सी-14, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095 इंमेलः DILSHA@bankofbaroda.co.in

अनुग्नक — A

[ई-बिक्रय पोर्टल पर आयोजित नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संक्षिप्त बिक्री सूचना] अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत — दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(राँ), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(राँ) / प्रतिभृति आस्तियां / बकाया / आरक्षित मृल्य / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

कर्जदार्स / गारंटर्स / बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक)	कुल बकाया	LITTURE SHEET SHE	2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	की स्थिति (रंचनात्मक / भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
पंजीकृत कार्यालयः दुकान नं. 2, 414, मेन रोड, मोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली—110032 गारंटरः रोहित सचदेवा पुत्र सुभाष चंद सचदेवा, 414, मेन रोड, भोला नाथ नगर,	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, निर्मित सम्पत्ति एमपीएल नं. 196 का हिस्सा, प्लॉट नं. 177 और 178, खसरा नं. 1595/624 मिन में से, गाँव चन्द्रावली बनाम शाहदरा, भोला नाथ नगर की आबादी में, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110032 में स्थित, यह सम्पत्ति सतनाम राठी पत्नी श्री सुभाष चंदर सचदेवा के नाम पर हैं। क्षेत्रफल 75.5 वर्ग गज, चौहदी: उत्तर में — अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में — 20' चौडी रोड, पूरब में — सम्पत्ति नं. 195, पश्चिम में — अन्य की सम्पत्ति	लाख निन्यान्वे हजार छः सौ पिचहत्तर मात्र) दिनांक 31.03. 2021 से ब्याज एवं अन्य प्रमार इत्यादि (कानूनी प्रमार सहित)	(शुक्रवार) को अपिड 02.00 बजे से अपिड 06.00		भौतिक	11-07-2022 (सोमवार) को पूर्वांह्य 10.00 बजे से अपींह्य 02.00 बजे तक
बिक्री के विस्तत नियमों 3	भीर शतों के लिए, कपया बैंक की वेबसाइट अर्थात ।	https://www.bankofbarod	la.in/e-auction.h	ntm & https://ibapi.in पर दिए गा	ए लिंक को	देखें।

इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, फोन नं. / मो.: 9892844652 से सम्पर्क करे।

विनय कुमार गौतम, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड प्रकाशन मांग सचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना मांग सूचना दिनांकित 01.06.2022 दिनांक 02.06.2022 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर दी गई

. श्री गणेश कान्कास्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज (ऋणकर्ता) अपने साझीदार के माध्यम से, भुखंड संख्या 180-188, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।। संसारपुर

टेरेस तहसील-जसवां, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिनकोड-176501 यहां परः मकान संख्या २७. रोज पार्कः वार्ड संख्या–०४. जलंधर– । पंजाब–144001 श्री राघव महेंद्रू (गारंटर/बंधककर्ता/साझीदार)

मकान संख्या २७ रोज पार्क वार्ड संख्या—०४ जलंधर—। पंजाब—१४४००१ **यहां पर भीः** भूखंड संख्या 180–188, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–।।।, संसारपूर टेरे तहसील-जसवां, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिनकोड-176501 यहां पर भी: मकान संख्या 8, अधिमापन 20 मारला एवं 60 वर्ग फुट, खसरा संख्या 169

1689 / 2, 1692, खाता संख्या 230 / 258, 231 / 259, 1972 / 2283, जेबी–2004–05, विकर ज्लंधर सिटी रोज पार्क जनगर जलंधर पंजाब-144001 (बंधककृत संपत्ति) श्रीमती रीधिका महेंद्र (गारंटर / बंधककर्ता)

मकान संख्या 27, रोज पार्क, वार्ड संख्या—04, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जलंधर—।,

**यहां पर भी**: भुखंड संख्या 180–188, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।।, संसारपुर टेरेस, तहसील-जसवां, कांगडा, हिमाचल प्रदेश, पिनकोड-176501

**यहां पर भी:** मकान संख्या 8, अधिमापन 20 मारला एवं 60 वर्ग फुट, खसरा संख्या 169 1689 / 2. 1692. खाता संख्या 230 / 258. 231 / 259. 1972 / 2283. जेबी—2004—05. विकर जलंधर सिटी. रोज पार्क. जनपद जलंधर. पंजाब-144001

(बंधककृत संपत्ति) श्रीमती अनु महेंद्र (गारंटर / साझीदार)

Rahul Timbadia

DK JAIN

Director

मकान संख्या २७, रोज पार्क, वार्ड संख्या-०४, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जलंधर-।, **यहां पर भी:** भुखंड संख्या 180–188, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।।, संसारपुर टेरेर

तहसील-जसवां, कांगडा, हिमाचल प्रदेश, पिनकोड-176501 श्री रवि कुमार महेंद्र (गारंटर/बंधककर्ता) मकान संख्या २७. रोज पार्क, वार्ड संख्या-०४. गलाब देवी हॉस्पिटल, जलंधर-।

**यहां पर भी:** भूखंड संख्या 180–188, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–।।।, संसारपूर टेरेस तहसील-जसवां. कांगडा, हिमाचल प्रदेश, पिनकोड-176501 यहां पर भी: मकान संख्या 8, अधिमापन 20 मारला एवं 60 वर्ग फूट, खसरा संख्या 1698

1689 / 2. 1692. खाता संख्या 230 / 258. 231 / 259. 1972 / 2283. जेबी—2004—05. विकय जलंधर सिटी रोज पार्क जनपद जलंधर पंजाब-144001 वेषयः ऋण अनुबंध संख्या एलएनजेएएल००६१३—१४०००२४४३ दिनांकित १८.०६.२०१३

आप ने ऋणों के प्रतिभगतान में चक कर दी है तथा इसीलिए इन्टेक कैपिटल लिमिटेड के स अनुरक्षित आपके ऋण खाता को 30.09.2015 को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर देया गया था, फलतः **रु. ८,८३,५८,७७८ /— (रुपए आठ करोड़ तिरासी लाख अट्ठावन हजार सात** सौ अटठहत्तर मात्र) की एक राशि 31.05.2022 के अनसार बकाया है। इन्टेक कैपिटल लिमिटेड ने 02.06.2022 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना दिनांकित 01.06.2022

निर्गत की जिसमें आपको 31.05.2022 के अनुसार बकाया रु. 8,83,58,778/- (रुपए आठ करोड़ **तिरासी लाख अटठावन हजार सात सौ अटठहत्तर मात्र)** की एक राशि का प्रतिभगतान करने क कहा गया था। उक्त सूचनाएं बिना वितरित हुए बिना ही "लेने से मना कर दिया/पता बदल चुका है तथा द्वार बंद थे/पता नहीं ढ़ंढा जा सकता" की टिप्पणी के साथ वापस लौट आई थीं अतः उक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है।

मकान संख्या ८, अधिमापन २० मारला एवं ६० वर्ग फुट, खसरा संख्या १६९५, १६८९/२, १६९२ खाता संख्या 230/258, 231/259, 1972/2283, जेबी-2004-05, विकया जलंधर सिटी. आबाव रोज पार्क, निकट गुलाब देवी हॉस्पिटल, जलंधर, जो इस प्रकार परिसीमित है:

उत्तर- भखंड संख्या ७ सबेग पूर्व- गुलाब देवी हॉस्पिटल दिनांकः 29.06.2022

प्राधिकत अधिका

दक्षिण- भूखंड संख्या 9 सुरेंद्र

IMPORTANT

milst care is taken prior to acceptance advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending

any monies or entering into any agreements with

advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any manner whatsoever.

### U.P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.,

## UNIT: MOHIUDDINPUR (MEERUT)

Online e-tenders are invited as per details given in tender documents for supply of Store Material/Contract Job. The e-tender documents with detailed specifications, date & time of opening of e-bids, E.M.D. etc. Will be available on UPECL e-tender portal http://etender.up.nic.in Bids

(3) Fibrizer Hammers & Knives (4) T.R.P.F. Rollers (5) Nickel Screen (6) P.V.C. Cable (7) Dismantling

Transported Equipment and erection, Commissioning of Transported Equipments and giving Satisfactory trial at our site. The General Manager reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process without assigning any reason.

प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना मांग सुचना दिनांकित 07.06.2022 दिनांक 09.06.2022 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर दी गई

भुखंड संख्या ६, नागला गाजीपुर मार्गे, एनआईटी, फरीदाबाद. हरियाणा-121001

मकान संख्या 748. सेक्टर-55. बल्लभगढ. फरीदाबाद. हरियाणा-121006 यहां पर भीः भुखंड संख्या ६, नांगला गाजीपुर रोड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

यहां पर भीः भूखंड संख्या 723, सेक्टर-55, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 यहां पर भीः भुखंड संख्या ३६३, अर्बन एस्टेट, सेक्टर-58, हरियाणा-121003

यहां पर भीः भूखंड संख्या 636, सेक्टर-58, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 यहां पर भी: मकान संख्या ८७१ सेक्टर-१ फरीदाबाद हरियाणा-121006 श्री भगत सिंह बिष्ट (गारंटर / साझीदार)

यहां पर भी: मकान संख्या २०९३. सेक्टर-7डी. फरीदाबाद, हरियाणा-121001

मकान संख्या १७४० वार्ड संख्या ६ नांगला एन्क्लेव पार्ट-।। फरीदाबाद यहां पर भीः मकान संख्या ९८०, सेक्टर-7सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

यहां पर भीः एससीएफ-32, प्रथम तल, हुडा मार्किट, सेक्टर-7, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

यहां पर भीः मकान संख्या २०९३, सेक्टर-7डी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 मकान संख्या 416. सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203001

 मैसर्स भवानी इंजीनियरिंग (गारंटर) भुखंड संख्या ६, नांगला गाजीपुर रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 विषयः ऋण अनुबंध संख्या एलएनएफबीडी00212—130001966 दिनांकित 17.01.2013 आप ने ऋणों के प्रतिभुगतान में चूक कर दी है तथा इसीलिए इन्टेक कैपिटल लिमिटेड के साथ

मात्र) की एक राशि 31.05.2022 के अनुसार बकाया है। इन्टेक कैपिटल लिमिटेड ने 09.06.2022 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना दिनांकित 07.06.2022 निर्गत की जिसमें आपको 31.05.2022 के अनुसार बकाया रु. 1,82,61,009 / - (रुपए एक करोड़ बयासी लाख इकसठ हजार नौ मात्र) की एक राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाएं बिना वितरित हुए बिना ही "अधूरा पता तथा द्वार बंद थे" की टिप्पणी के साथ

यहां संस्थापित हुईः भूखंड संख्या 6, नांगला गाजीपुर रोड, एनआईटी, फरीदाबाद

दिनांक: 29.06.2022 इन्टेक कैपिटल लि. स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, **GANESH FILMS INDIA LIMITED** 

(CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74994MH2018PLC307613)

Registered Office: 503, Floor-5, Plot 461D, A Wing, Parshvanath Gardens, Bhaudaji Road, Kings Circle, Matunga, Mumbai - 400019, Maharashtra, India; Tel. No.: +91-8104449343; Website: http://www.ganeshfilms.com;Email Id: info@ganeshfilms.com Open Offer by Rajiv Vashisht ("Acquirer 1"), Gaurav Kumar ("Acquirer 2") and Annaya Management Consultancy Private Limited ("Acquirer 3"), (hereinafter referred to as "Acquirers") to acquire upto 7,81,998 (constituting 26.00% of the Equity and Voting Share Capital of the Target Company) equity shares of face value of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 12.70 (Rupees Twelve and Paise Seventy Only) per equity

share aggregating upto Rs. 99,31,374.60 (Rupees Ninety-Nine Lakhs Thirty-One Thousand Three Hundred Seventy-Four and Paise Sixty Only) to the Public Shareholders of Ganesh Films India Limited ("GFIL" or "Target Company") in terms of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations") ("Open Offer"). This Advertisement is in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") and is to be read together with: a) the Public Announcement dated April 27, 2022 ("PA"); b) the Detailed Public Statement published on May 05, 2022 in Financial Express (English Daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi Daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) (hereinafter referred collectively as "Published Newspapers") where the Registered Office of the Target Company is situated ("DPS"); c) the Letter of Offer dated June 18, 2022 ("LOF") and is being issued by Chartered Finance Management Private Limited (Formerly known as Chartered Finance

1. The Offer Price is Rs. 12.70 (Rupees Twelve and Paise Seventy Only) per equity share is payable in cash ("Offer Price"). There has been no

Management Limited) ("Manager to the Offer"), on behalf of Mr. Rajiv Vashisht, Mr. Gaurav Kumar and M/s. Annaya Management Consultancy Private Limited ("Acquirers") pursuant to Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations in respect of Open Offer ("Pre Offer Advertisement cum

2. The Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company is of the opinion that the Offer Price of Rs.12.70 (Rupees Twelve and Paise Seventy Only) offered by the Acquirers is in accordance with the relevant regulations prescribed in the SEBI (SAST) Regulations and prima facie appear to be fair, reasonable and justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned Published newspapers on

Tuesday, June 28, 2022. There has been no competitive bid to this Offer.

The completion of dispatch of the Letter of Offer ("LOF") through electronic means to all the Public Shareholders of Target Company (holding Equity Shares in dematerialised form) whose name appeared on the register of members on the Identified Date and who have registered their email ids with the Depositories and/or the Target Company, and the dispatch through physical means to all the public shareholders of the Target Company (holding Equity Shares in Physical form) whose name appeared on the register of members on the Identified Date was completed on Thursday, June 23, 2022. However, accidental omission to dispatch or non-receipt of the LOF to or by any eligible shareholder entitled to this Open Offer shall not

invalidate the Open Offer in any manner whatsoever. 5. In the event the Selling Broker of Public Shareholder is not registered with BSE, then such shareholder may approach the Buying Broker viz., Emkay Global Financial Services Limited to tender his/her Equity Shares under the Offer

Please note that a copy of the LOF shall also available on the website of Securities and Exchange Board of India ("SEBI") i.e., www.sebi.gov.in and also on the website of Target Company www.ganeshfilms.com. Further, in case of non-receipt of LOF, the public shareholders holding equity shares may participate in the offer by providing their application in plain paper to their Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on May 12, 2022. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide Observation letter number SEBI/HO/CFD/DCR-111/OW/24522/1 dated June 14, 2022 which have been incorporated in the LOF.

8. Any other material changes from the date of PA: Nil

9. To the best of knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to the Offer. However, if any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to such

10. Public Shareholders are required to refer paragraph 8 on page 29 of the LOF (Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer) in relation to inter alia the procedure for tendering their equity shares in the open offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. 11. As on date, the Target Company is fully compliant with the listing requirements and there has not been any penal/punitive action taken by the Stock

12. Other updates and changes in the LOF:

(i.) Included a confirmation that there are no directions subsisting pr proceedings pending against the Acquirers under the SEBI Act, 1992 and

regulations made thereunder and also, by any other regulator - please refer to para 4.4.12 on page 18 of the LOF. Included a table on Other Financial Data relating to Dividend and Earnings Per Share - please refer to para 5.11 on page 21 of the LOF.

Included confirmation that the Target Company has not received any complaint till the date of the Letter of Offer, in relation to the Open Offer

- please refer to para 5.17 on page 23 of the LOF. 13. Revised Schedule of Activities:

Activities

	activities as disclosed in DLOF	activities
	Day, Date	Day, Date\$
Date of the Public Announcement	Wednesday; April 27, 2022	Wednesday; April 27, 20
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Thursday; May 05, 2022	Thursday; May 05, 202
Last date for filing the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday; May 12, 2022	Thursday; May 12, 202
Last date for public announcement of a Competing Offer#	Thursday; May 26, 2022	Thursday; May 26, 202
Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Friday; June 03, 2022	Tuesday; June 14, 2022
Identified Date*	Tuesday; June 07, 2022	Thursday; June 16, 202
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the Public Equity Shareholders whose name appears in the register of members on the Identified Date	Tuesday; June 14, 2022	Thursday; June 23, 20
Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Equity Shareholders for this Offer	Thursday; June 16, 2022	Tuesday; June 28, 202
Last date for upward revision of the Offer Price/ Offer Size	Friday; June 17, 2022	Tuesday; June 28, 202
Date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement has been published	Friday; June 17, 2022	Wednesday; June 29, 2
Date of commencement of tendering period ("Offer Opening Date")	Tuesday; June 21, 2022	Thursday; June 30, 20
Date of closing of tendering period ("Offer Closing Date")	Monday; July 04, 2022	Wednesday; July 13, 20
Last date for issue of post-offer advertisement	Monday; July 11, 2022	Wednesday; July 20, 20
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Monday; July 18, 2022	Wednesday; July 27, 20

\$ The original schedule of activities (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011) and were subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authority, if any, and SEBI's approval.

@ Actual date of receipt of SEBI's final observation on the DLOF.

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Public Shareholders of the Target Company /(registered and unregistered) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Open Offer. # There has been no competing offer as of the date of the Letter of Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

### ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS; MR RAJIV VASHISHT, MR. GAURAV KUMAR AND ANNAYA MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED MANAGER TO THE OFFER



Date: Wednesday; June 29, 2022

CHARTERED FINANCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (Formerly known as Chartered Finance Management Limited) 2<sup>nd</sup> Floor, Wakefield House, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbai - 400038, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91-22-22696944 Email Address: openoffer@cfml.in Website: www.charteredfinance.in Contact Person: Mr. R. Ramnath

SEBI Registration Number: INM000012052 Place: Mumbai

Ref. No.: MOH/PD/2022-23/243 DATED: 28.06.2022 SHORT TERM E-TENDERS NOTICE

can be submitted up to 12.07.2022, 2:00 P.M. (1) Supply of M.S., G.I. & IBR Pipes (2) C.S. Casting

of Equipments/Machinery at Corporation unit-Munderwa (Basti) Site, Loading and Unloading of

(SHISHPAL SINGH), GENERAL MANAGER

प्रकाशन मांग सचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

एच एंड एच इंटरप्राइज (ऋणकर्ता) अपने साझीदार के माध्यम से,

श्री विजय गुप्ता (गारंटर/साझीदार)

मकान संख्या 1740, वार्ड संख्या 6, नांगला एन्क्लेव, पार्ट-।।, फरीदाबाद

यहां पर भीः मकान संख्या 748, सेक्टर-55, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004

अनुरक्षित आपके ऋण खाता को 30.09.2015 को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था. फलतः रु. 1.82.61.009 / – (रुपए एक करोड बयासी लाख इकसठ हजार नै

वापस लौट आई थीं। अतः उक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। एसीई सीएनसी लेथ मॉडल जॉब्बर एलएम

Revised Schedule of

www.readwhere.com

दिनांक : 28-06-2022, स्थान : नई दिल्ली

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 201 'नियमावली'') के प्रावधानों के अनसार कम्पनी को वित्त वर्ष 2014-15 के लिये लाभांश. जो गत वर्षों की अवधि से दावा-रहित रहा है. को आईर्डपीएप

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC063387

पंजीकृत कार्यालय : 912, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

Website:www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net; Tel.: 011-41808125

जाने वाले शेयर के शेयरधारक को उनके पंजीकत पते पर वैयक्तिक रूप से सचित कर दिया है तथा ऐसे शेयरों का विवरण जिन्हें आईईपीएफ में अंतरि किया जाएगा. इसारी वेबसाईट अर्थात www.mcil net पर उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक अंतरित की जाने वाली अन-एन्कैश्ट लाभांश तथा शेय के विवरणों की जाँच वेबसाईट पर कर सकते हैं। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किय

लिये नियमावली में निर्दिष्ट पुकिया में नियत तिथि तक आईईपीएफ में लाभांश अंतरित कर दी जाएगी। तुरुथानीय शेयरों जिस पर लागतार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है। कोई भी बिना किसी अग्रिम सचना के अंतरित कर दिया जायेगा कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा शेयरों के लिये कम्पनी के विरुद्ध को भी दावा नहीं की जा सकेगी। शेयरधारक नियमावली

उक्त विषय पर किसी भी पुछताछ के लिये शेयरधारकों से आग्रह है कि कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स, मै. लिंक इन्टाइम इण्डिया प्राईवेत लिमिटेड, नोवल हाइट्स 1ला तल, प्लॉट नं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, ईमेल delhi@linkintime.co.in: वेबसाइट : www.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें। स्थान : नई दिल्ली